



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 93]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 1979/फाल्गुन 5, 1900

No. 93]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 1979/PHALGUNA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1979

आदेश

क्र.अं० 110(अ)—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए वस्त्र उद्योग विकास परिषद् के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, यथातः—

वस्त्र उद्योग विकास परिषद्

अध्यक्ष

- विशेष सचिव (वस्त्र)
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग मंत्रालय,
नई दिल्ली।

सदस्य

आसकीय :—

- संयुक्त सचिव (वस्त्र),
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग मंत्रालय,
नई दिल्ली।

सदस्य-सचिव

- वस्त्र आयुक्त,
डाक बैग सं० 11500,
मुम्बई, 400020
- पेट्रोलियम विभाग का प्रतिनिधि,
पेट्रोलियम, रसायन और खाद मंत्रालय,
नई दिल्ली।
- कृषि विभाग का प्रतिनिधि,
कृषि और सिंचाई मंत्रालय,
नई दिल्ली।
- बाणिज्य विभाग का प्रतिनिधि,
बाणिज्य, नागर प्रशास्य और सहकारिता मंत्रालय,
नई दिल्ली।
- योजना आयोग का प्रतिनिधि,
योजना भवन,
नई दिल्ली।
- हथकरघा विकास आयुक्त,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली।
- हस्तशिल्प विकास आयुक्त,
ग्रामिण भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड,
पश्चिमी ब्लाक सं० 7,
रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली-110022

उद्योग :

10. इण्डियन काँटन मिल्स फेडरेशन का प्रतिनिधि,
टेक्सटाइल सेक्टर,
34, पी० डी० मैसलो रोड (फरोरे रोड),
बोर्ली कुन्देर के निकट,
मुम्बई-400009
11. प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
सूर्य किरण भवन, |
19 कस्तूरबा गान्धी मार्ग,
नई दिल्ली-110001
12. अध्यक्ष,
ऑल इण्डिया फेडरेशन आफ़ कौ-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स,
||14 मुजबान रोड, दूसरी मंजिल, ||
||मुम्बई-400001
13. कनिष्ठ बल्ल उद्योग में अनुसंधान सेक्टर का एक प्रतिनिधि,
अर्थात् :—
(i) अदमदाबाद टेक्सटाइल इन्डस्ट्री रिमर्च एसोसिएशन,
पालिटेक्निक डॉक घर, ||
अहमदाबाद-380015
(ii) डॉम्बे टेक्सटाइल रिमर्च एसोसिएशन, ||
साल बहादुर शास्त्री मार्ग, ||
घाटकोपार (पश्चिमी), ||
मुम्बई-400086
(iii) माऊथ इण्डिया टेक्सटाइल रिमर्च एसोसिएशन,
कॉम्पेडोर हवाई अड्डा आकषर,
कॉम्पेडोर-641014
(उक्त अनुसंधान निकाय जारी-जारी से प्रतिनिधित्व करेंगे)
14. अध्यक्ष,
दि फेडरेशन आफ़ ऑल इण्डिया काँटन पॉवरलूम एसोसिएशन,
महाराष्ट्र चेम्बर आफ़ कॉमर्स की मार्फत
12, रामपल्ल रो,
फोर्ट, मुम्बई-400023
15. अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ़ हौजरी मैनुफैक्चरर्स
एसोसिएशन (एफ० जी० एच० (एम० ए०) 70/72 गैरिफ
देवी (चकला) स्ट्रीट, ||
दूसरी मंजिल,
मुम्बई-400008
16. अध्यक्ष,
एसोसिएशन आफ़ मेन, मैड फाइव इन्डस्ट्री (ए० एम० एफ०
आई०),
रेशम भवन, 78 वीर नरिमन रोड,
चर्चगेट, मुम्बई-400020
17. अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ़ इण्डियन घाट सिल्क विविंग इन्डस्ट्री (एफ० आई०
ए० एम० इन्ड्यू० आई०),
रेशम भवन, 78 वीर नरिमन रोड,
मुम्बई-400020

18. अध्यक्ष,

एसोसिएशन आफ़ सिन्थेटिक फाइव इन्डस्ट्री (ए० एम० एफ०
आई०),
राज महल, पहली मंजिल 84 वीर नरिमन रोड फोर्ट,
मुम्बई-400020

19. अध्यक्ष,

मिल्क एण्ड घाट सिल्क मिल्स,
रिमर्च एसोसिएशन (एस० ए० एम० एम० आई० आर० ए०),
दा० अग्ने बमन्त रोड, बोर्ली,
मुम्बई-400025

20. अध्यक्ष,

इण्डियन वुलन मिल्स फेडरेशन (आई० इन्ड्यू० एम० एफ०),
चर्चगेट चेम्बरस,
5 न्यू मेरीन लाइन्स,
मुम्बई-400020

21. अध्यक्ष,

इण्डियन शोर्टा मिल्स एसोसिएशन (आई० एस० एम० ए०),
मिम्पेलेखम वुलन मिल्स की मार्फत, साधना रेयन हाउस,
डा० जी० एन० रोड,
मुम्बई-400001

22. अध्यक्ष,

हौजरी इण्डस्ट्री फेडरेशन,
सित संग घर रोड,
सिबिल लाइन्स,
सुधियाना।

23. निदेशक,

वुल रिमर्च एसोसिएशन (इन्ड्यू० आर० ए०),
चर्चगेट चेम्बरस, मातवी मंजिल,
5-न्यू मेरीन लाइन्स,
मुम्बई-400020

24. अध्यक्ष,

इण्डियन गार्मेन्ट मैनुफैक्चरर्स फेडरेशन,
कॉमर्स सेक्टर, सी०-3 तार्डी मेन रोड,
मुम्बई।

25. अध्यक्ष, |

टेक्सटाइल मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन,
53 सितल चेम्बरस, पांचवी मंजिल,
नरिमन पाइन्ट, मुम्बई, 400021

अभिक :

26. श्री प्रभाकर मोरे,

महा सचिव, गिरती कामगार सभा,
अम साधना, डी० वी० प्रधान रोड,
दावर, मुम्बई-400014

27. श्री पी० एस० चिन्नावोराध,

15 वी० सी० के० लेफ्टाउट, द्विती रोड,
काम्पेडोर-641018

2. केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के
नियम 2 के खण्ड (ग) के अनुसरण में, श्री आर० रामकृष्ण
संयुक्त सचिव, औद्योगिक विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

को उक्त विकास परिषद् के सदस्यों के कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिए नियुक्त करती है।

3. वस्त्र उद्योग विकास परिषद्, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के खण्ड 18 के अनुसरण में, परिषद् के सदस्यों में से स्थायी पैनल बना सकती है। पैनल, विशेषज्ञों और अन्य नामनिर्देशनियों को संबंधित कार्य क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहयोगित कर सकती है।

[फा० सं० 13/54/77-टी०पी०सी०]

आर० रामकृष्ण, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th February, 1979

S.O. 110 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with the rules 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints for a period of two years with effect from the date of issue of this order, the following persons to be members of the Development Council for Textile Industry, namely :—

DEVELOPMENT COUNCIL FOR TEXTILE INDUSTRY

Chairman :

1. Special Secretary (Textiles),
Department of Industrial Development,
Ministry of Industry,
New Delhi.

Members :

Officials :—

2. Joint Secretary (Textiles),
Department of Industrial Development,
Ministry of Industry,
New Delhi. —Member Secretary
3. The Textile Commissioner,
Post Bag No. 11500,
Bombay-400020.
4. Representative of Department of Petroleum,
Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilisers,
New Delhi.
5. Representative of Department of Agriculture,
Ministry of Agriculture and Irrigation,
New Delhi.
6. Representative of Department of Commerce,
Ministry of Commerce, Civil Supplies and
Co-operation, New Delhi.
7. Representative of the Planning Commission,
Yojana Bhavan, New Delhi.
8. The Development Commissioner for Handlooms,
Udyog Bhavan, New Delhi.
9. The Development Commissioner for Handicrafts,
All India Handicrafts Board,
West Block No. 7,
Ramakrishna Puram,
New Delhi-110022.

Industry :

10. Representative of Indian Cotton Mills' Federation,
Textile Centre,
34, P. D. Mellow Road (Frere Road),
Near Worli Bunder,
Bombay-400009.

11. The Managing Director,
National Textile Corporation Limited,
Surya Kiran Building,
19, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.
12. The President,
All India Federation of Co-operative Spinning Mills,
14, Murzban Road, 2nd Floor,
Bombay-400001
13. A Representative of the Research Sector in Cotton
textile industry, namely :—
(i) Ahmedabad Textile Industry's Research Association,
Polytechnic P.O., Ahmedabad-380015.
(ii) Bombay Textile Research Association, Lul
Bahadur Shastri Marg, Ghatkopar (West),
Bombay-400006.
(iii) South India Textile Research Association,
Coimbatore Aerodrome P.O., Coimbatore-641014.

(The above research bodies will be represented by turn).

14. The President,
The Federation of All India Cotton Powerloom
Association, C/o. Maharashtra Chamber of
Commerce, 12, Rampart Row,
Fort, Bombay-400023.
15. The President Federation of Hosiery Manufacturers'
Association (FOHMA),
70/72, Sheriff Devjee (Chakla) Street, 2nd Floor,
Bombay-400003.
16. The President,
Association of Man-Made Fibre Industry (AMFI),
Resham Bhavan, 78-Veer Nariman Road,
Churchgate, Bombay-400020.
17. The President,
Federation of Indian Art Silk Weaving Industry
(FIASWI),
Resham Bhavan, 78-Veer Nariman Road,
Bombay-400020.
18. The President,
Association of Synthetic Fibre Industry (ASFI),
Raj Mahal, 1st Floor,
84, Veer Nariman Road, Fort,
Bombay-400020.
19. The President,
Silk and Artsilk Mills' Research Association
(SASMRA),
Dr. Annie Besant Road, Worli,
Bombay-400025.
20. The President,
Indian Shoddy Mills' Association (ISMA),
Churchgate Chambers,
5, New Marine Lines, Bombay-400020.
21. The President,
Indian Shoddy Mills' Association, (ISMA),
C/o. Simplex Woollen Mills,
Sadhana Rayon House, Dr. D. N. Road,
Bombay-400001.
22. The President,
Hosiery Industry Federation,
Sat Sangh Ghar Road,
Civil Lines, Ludhiana.
23. The Director,
Wool Research Association (WRA),
Churchgate Chambers, 7th Floor,
5, New Marine Lines, Bombay-400020.
24. The President,
Indian Garment Manufacturers' Federation,
Commerce Centre, C-3, Tardeo Main Road,
Bombay.

25. The President,
Textile Machinery Manufacturers' Association,
53, Mittal Chambers, 5th Floor,
Nariman Point, Bombay-400021.

Labour :—

26. Shri Prabhakar More,
General Secretary, Girni Kamgar Sabha,
Shram Sadhana, D. V. Pradhan Road,
Dadar, Bombay-400014.
27. Shri P. S. Chinnadorai,
15, V. C. K. Layout, Trichy Road,
Coimbatore-61018.

2. In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Shri R. Ramakrishna, Joint Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry, New Delhi, to carry on the functions of Secretary to the said Development Council.

3. In pursuance of clause 18 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Development Council for Textile Industry may form standing panels from amongst the members of the council. The panel may co-opt experts and other nominees to represent the interests of the concerned area of activities.

[File No. 13/54/77-TPC]
R. RAMAKRISHNA, Jt. Secy.